



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 9] नई दिल्ली, मई 13—मई 19, 2007, शनिवार/वैशाख 23—वैशाख 29, 1929
No. 9] NEW DELHI, MAY 13—MAY 19, 2007, SATURDAY/VAISAKHA 23—VAISAKHA 29, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2007

आ. अ. 24.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2005 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:—

सारणी

क्रम संख्या	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	02—बगहा (अ.जा.)	श्री रामाशीष बैठा ग्राम—बोरबल, पो.—बोरबल थाना—सेमरा, जिला—प. चम्पारण, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

1	2	3	4	5
2	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	03—रामनगर	श्री काशी बैठा, ग्राम-बिशनपुरवा, पो.-बी बी बनकटवा, थाना-बथुवरिया बगहा-1, जिला-प. चम्पारण, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
3	--वही--	--वही--	श्री राजेश उरॉव, ग्राम-हसनापुर, पो.-चिउटांहा, थाना-सेमरा, जिला-प. चम्पारण, बिहार	--वही--
4	--वही--	--वही--	श्री अखिलेश प्रसाद, ग्रा.-महुई डीह, पो.-मौजा महुई, थाना-रामनगर, जिला-प. चम्पारण, बिहार	--वही--
5	--वही--	--वही--	श्री दीनानाथ शर्मा, साकिन, डेनमरवा, पोस्ट-डेनमरवा, थाना-रामनगर, जिला-प. चम्पारण, बिहार	--वही--
6	--वही--	8—बेतिया	श्री अफसर आलम, मुहल्ला छावनी, थाना-बेतिया नगर, जिला-प. चम्पारण, बिहार	--वही--
7	--वही--	9—नौतन	श्री रामकान्त प्रसाद, ग्रा व पो.-सनसरैया, भाया-बेतिया, थाना-मुफस्सिल बेतिया, प्रखण्ड नौतन, जिला-पश्चिम चम्पारण, बिहार	--वही--
8	--वही--	10—रक्सौल	श्री जय प्रकाश पचौड़ी, ग्रा.-पचौड़ी टोला, पोस्ट-रघुनाथपुर, थाना-रामगढ़वा, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार	--वही--
9	--वही--	--वही--	श्री अनवारूल हक, ग्रा.-डुमरिया, पोस्ट-कौडिहार, थाना-रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार	--वही--
10	--वही--	11—सुगौली	श्री रामचंद्र ठाकुर, स.-रघुनाथपुर, बालगंगा, थाना-तुरकौलिया, पू. चम्पारण, बिहार	--वही--
11	--वही--	12—मोतिहारी	श्री सत्य प्रकाश सहनी, ग्रा.-भटहॉ, पो.-पतौरा, थाना-मुफस्सिल, मोतिहारी, पूर्वी. चम्पारण, बिहार	--वही--
12	--वही--	13—आदापुर	श्री संजय कुमार, ग्रा.-गम्हरिया डाकघर-हरदिया, थाना-रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार	--वही--
13	--वही--	--वही--	श्री जगरनाथ राय, ग्रा.-झिटकहिया, पो.-टिकुलिया, थाना-आदापुर, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार	--वही--
14	--वही--	--वही--	श्री बिजली राउत, ग्रा.+पो.-हरपुर थाना-हरपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार	--वही--
15	--वही--	--वही--	श्री रवीन्द्र कुमार, ग्रा.-सिरिसिया माल, पो.-मोनेयाडीह, थाना-नकरदेई, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार	--वही--

1	2	3	4	5
16	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	13—आदापुर	श्री विद्यानंद प्रसाद, ग्रा.—बैद्यनाथपुर थाना—छौड़ादानो, जिला—पूर्वी चम्पारण, बिहार	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
17	—वही—	—वही—	श्री सुरेश प्रसाद, ग्रा.—भवानीपुर, पो.—बाजार भवानीपुर, थाना—नकरदेई, जिला—पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
18	—वही—	14—ढाका	श्री कामेश्वर बैठा, ग्रा.—भगवानपुर, डाकघर—बहलोलपुर, भाया—ढाका, जिला—पूर्वी चम्पारण, बिहार.	—वही—
19	—वही—	15—घोड़ासहन	श्री उमेश कुमार, ग्रा.—राघोपुर पोस्ट—गंगापीपर, थाना—चिरैया, जिला—पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
20	—वही—	—वही—	श्री ओमप्रकाश पासवान, ग्रा.—भटिनिया, पोस्ट—भेलवा सर्किल, थाना—घोड़ासहन, पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
21	—वही—	—वही—	श्री बाबूलाल बैठा, ग्रा.—मसहॉ, डाकघर—सिरौना, थाना—शिकारगंज, पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
22	—वही—	16—मधुबन	श्री राज किशोर महतो, ग्रा.—कोदरिया अभी, पो.—मधुरापुर, जिला—पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
23	—वही—	17—पिपरा (अ.जा.)	श्री गणेश कुमार “अकेला” ग्रा.—भोरिखिया, पो.—टिकुलिया, थाना—पिपरा, जिला—पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
24	—वही—	—वही—	श्री नंदलाल पासवान, ग्रा.—जहींगरा, पो.—दामोदरपुर, थाना—पिपरा, जिला—पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
25	—वही—	19—हरसिद्धि	श्री रूपनारायण राम, ग्रा.—सरेया खूद (मटियरिया), पो.—मखुआ, थाना— हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
26	—वही—	20—गोविन्दगंज	श्री रामनरेश चौबे, ग्रा. एवं पो.—नवादा, थाना—गोविन्दगंज, पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
27	—वही—	—वही—	श्री लक्ष्मी राम, ग्रा. एवं पो.—पीपरा, थाना—गोविन्दगंज, पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
28	—वही—	—वही—	श्री सुनील कुमार आजाद, ग्रा.—कमलुआ पो.—ममरख, मलाही, पूर्वी चम्पारण, बिहार	—वही—
29	—वही—	27—बंसतपुर	श्री राकेश सिंह, ग्रा.—कपड़ीपुर, पो.—नवीगंज बाजार, जिला—सिवान, बिहार	—वही—

1	2	3	4	5
30	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	27- बंसतपुर	श्री युगल किशोर उपाध्याय, ग्रा.-सोन्धानी सारीपट्टी, पो.-सोन्धानी थाना- भगवानपुरहाट, जिला-सिवान, बिहार	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
31	-वही-	-वही-	श्री कमलदेव नारायण शुक्ल, ग्रा.-सोन्धानी सारीपट्टी पो.-सोन्धानी, थाना-भगवानपुरहाट, जिला-सिवान, बिहार	-वही-
32	-वही-	31-दरौली	श्री कृष्ण मुरारी राय, ग्रा एव पो.- बेलाव, जिला-सिवान, बिहार	-वही-
33	-वही-	33-महाराजगंज	श्री अशोक कुमार पासवान ग्राम-उमरी, पो.-तरवारा, जिला-सिवान, बिहार	-वही-
34	-वही-	-वही-	श्री अशोक राम, ग्रा.-सवान विग्रह, पो.-महाराजगंज, जिला-सिवान, बिहार	-वही-
35	-वही-	-वही-	श्री देवधारी राम, ग्रा.-रानीबारी, पो.-रुकुन्दीपुर, जिला-सिवान, बिहार	-वही-
36	-वही-	-वही-	श्री विशुनदेव राम, ग्रा.-सवान विग्रह, पो.-महाराजगंज, जिला-सिवान, बिहार	-वही-
37	-वही-	-वही-	श्री बनारसी राम, ग्राम-शाहपुर, पो.-शकरा, जिला-सिवान, बिहार	-वही-
38	-वही-	-वही-	श्री शिवचन्द्र राम, ग्राम-पकड़ी, पो.-महुअल महाल, जिला-सिवान, बिहार	-वही-
39	-वही-	-वही-	श्री सुरेन्द्र राम, ग्राम-सिवान विग्रह, पो.-महाराजगंज, जिला-सिवान, बिहार	-वही-
40	-वही-	64-रुन्नीसैदपुर	श्री राम कृष्ण कुमार, ग्राम-अथरी गरगट्टा, पो.-अथरी, थाना-रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी, बिहार	-वही-
41	-वही-	65-बेलसंड	श्री लाल बाबू यादव, पिता-गणेश प्रसाद यादव, ग्राम-कुम्हार, पो.-गंगाधर्मपुर, था.-तरियानी, जि.-शिवहर, बिहार	-वही-
42	-वही-	67-सीतामढ़ी	श्री शंकर भूषण, पिता-बलदेव पासवान, ग्रा. एवं पो. भासर मछहा, था. एवं जि.-सीतामढ़ी, बिहार	-वही-

1	2	3	4	5
43	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	71-सुरसंड	श्री महेश्वर पासवान, ग्रा.-लडुआरी, पो.-सुतिहारा, था.-परिहार, जि.-सीतामढ़ी, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
44	-वही-	-वही-	श्री विजय कुमार, ग्राम एवं पो.-बनगौंव, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी, बिहार	-वही-
45	-वही-	-वही-	श्री शंकर पासवान, ग्राम एवं पो.-सरदल पट्टी, थाना-परिहार, जिला-सीतामढ़ी, बिहार	-वही-
46	-वही-	72-पुपरी	श्री सुरेश राय, ग्राम एवं पो.-डुम्हारपट्टी, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी, बिहार	-वही-
47	-वही-	-वही-	मो. मोफीज, नगर पंचायत, जनकपुर रोड, वार्ड नं.-6, पुपरी, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी, बिहार	-वही-
48	-वही-	103-बलिया	श्री नटराजन साह ग्राम-छोटी बलिया, बाजार, पो.-लखमिनियां, जिला-बेगूसराय, बिहार	-वही-
49	-वही-	105-बेगूसराय	श्री चन्द्र भूषण पासवान, ग्राम-एधु तिलक टोला, वार्ड-02, पोस्ट-बड़ी ऐधु, थाना-मुफसिल, जिला-बेगूसराय, बिहार	-वही-
50	-वही-	-वही-	श्री लक्ष्मी साहू, ग्राम-हेमनपुर, पोस्ट-मोहनपुर, थाना-बखरी, जिला-बेगूसराय, बिहार	-वही-
51	-वही-	106-बरौनी	सुश्री सपना देवी, ग्राम-बागवाड़ा, पोस्ट-सुहुदनगर, जिला-बेगूसराय, बिहार	-वही-
52	-वही-	106-बरौनी	श्री खाखों यादव, ग्राम-पिढोली, थाना-तेघड़ा, जिला-बेगूसराय, बिहार	-वही-
53	-वही-	107-बछवाड़ा	श्री युगेश्वर गोप ग्राम-भगवानपुर, पोस्ट-मेहदोली, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय, बिहार	-वही-
54	-वही-	-वही-	श्री अशोक राय, ग्राम-सलेमपुर, पंचायत-फतेहा, थाना-व अंचल-बछवाड़ा, पोस्ट-समसीपुर भीठ, जिला-बेगूसराय, बिहार	-वही-

1	2	3	4	5
55	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	107-बछवाड़ा	श्री तिलकधारी राय, ग्राम-मराँची, पोस्ट-मराँची थाना- बछवाड़ा, जिला-बेगूसराय, बिहार	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
56		108-चेरिया बरियारपुर	श्री दीनानाथ पासवान, ग्राम-गोपालपुर, पो.-आकोपुर, जिला-बेगूसराय, बिहार	-वही-
57	-वही-	109-बखरी (अ.जा.)	श्री नंदकिशोर सदा, ग्राम-शादीपुर, पोस्ट-रामपुर, जिला-बेगूसराय, बिहार	-वही-
58	-वही-	131-सिकटी	श्री मंगल कुमार राम, ग्राम कुआ पोखर, पो.-आमगाछी, थाना-सिकटी, जिला-अररिया, बिहार	-वही-
59	-वही-	-वही-	मो. इसमाइल आजाद, सा.-खनियाबाद लालपानी, पो.-फतेहपुर, थाना-फतेहपुर (टेढागाछ), जिला-किशनगंज, बिहार	-वही-
60	-वही-	-वही-	श्री खुशी लाल साह, सा.-एवं पो.-गैयारी, थाना- अररिया, जिला- अररिया, बिहार	-वही-
61	-वही-	132-जोकिहाट	श्री भूमानंद ऋषि ग्राम-दोमोहना, पो.-बागनगर, थाना-महलगांव, जिला-अररिया, बिहार	-वही-
62	-वही-	133-बहादुरगंज	श्री महफुज आलम, ग्राम-हरवाडागां, पो.- एवं थाना-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज, बिहार	-वही-
63	-वही-	-वही-	श्री श्याम ना. सिंह ग्राम+पो. एवं थाना-दिघलबैंक, जिला- किशनगंज, बिहार	-वही-
64	-वही-	-वही-	श्री श्रीकांत पांडेय ग्राम-हड़वाडागां, पो.-एवं थाना-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज, बिहार	-वही-
65	-वही-	-वही-	श्री हरि लाल राम ग्राम-कुदौली, पो.-बीबीगंज, थाना-कोढाबाड़ी/दिघलबैंक जिला-किशनगंज, बिहार	-वही-
66	-वही-	134-ठाकुरगंज	श्री श्याम सुन्दर ठाकुर ग्राम एवं पो.-चुरली, थाना-गलगलिया, (ठाकुरगंज), जिला-किशनगंज, बिहार	-वही-

1	2	3	4	5
67	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	135-किशनगंज	श्री इन्द्रदेव पासवान खगड़ा पोखर, वार्ड नं.-24, थाना एवं जिला-किशनगंज, बिहार	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
68	-वही-	-वही-	श्री नुरुल आलम ग्राम-पचहारा पो.-धनपतगंज, थाना-कोचाधामन, जिला-किशनगंज, बिहार	-वही-
69	-वही-	147-पीरपैती	सुश्री अंजू देवी ग्राम एवं पोस्ट-बाखरपुर, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर, बिहार	-वही-
70	-वही-	-वही-	श्री हरिवंश सिंह, ग्राम एवं पोस्ट-बाबूपुर, जिला-भागलपुर, बिहार	-वही-
71	-वही-	152-बिहपुर	श्री अजय कु. दास पिता-शिवशंकर दास, ग्राम-राधोपुर हाट, पो.-राधोपुर, बिहार	-वही-
72	-वही-	-वही-	श्री सुरेश पंडित पिता महावीर पंडित, ग्राम/पो.-तुलसीपुर, थाना-खरीक, जिला-भागलपुर, बिहार	-वही-
73	-वही-	154-अमरपुर	श्री हीरा लाला मंडल ग्राम-पनिया, पो.-भुरना, अंचल-बौसी, थाना-बाराहाट, जिला-बांका, बिहार	-वही-
74	-वही-	-वही-	सुश्री मन्देश्वरी राव ग्राम-डोमोडीह, पत्रा-कुमारपुर, थाना-फुल्लीडुमर, जिला-बांका, बिहार	-वही-
75	-वही-	-वही-	श्री शाहजहाँ खॉं, ग्राम-संग्रामपुर, पो. लौगाँव, जिला-बांका, बिहार	-वही-
76	-वही-	-वही-	श्री कलानन्द सिंह, ग्राम-कुसाहा, पो.-गुलनी, कुसाहा, था.-शम्भुगंज, जिला-बांका, बिहार	-वही-
77	-वही-	155-धुरैया (अ.जा.)	श्री ब्रह्मदेव रजक ग्राम-बढौना, पत्रालय-बढौना थाना-बाराहाट, जिला-बांका, बिहार	-वही-
78	-वही-	-वही-	श्री मानिक दास, ग्राम-झिंकुलिया, पत्रालय-झिंकुलिया जिला-बांका, बिहार	-वही-
79	-वही-	-वही-	श्री राजेश कुमार, ग्राम-रणगाँव, पत्रालय-रणगाँव धौरैया, बांका-बिहार	-वही-

1	2	3	4	5
80	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	156-बाँका	श्री प्रमोद पासवान, कहरिया नगर पंचायत, वार्ड नं.-6 थाना एवं जिला-बाँका, बिहार	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
81	-वही-	-वही-	बिन्देश्वरी यादव, ग्राम-वैदाचक, पो.-लेखानौड़ी थाना एवं जिला-बाँका, बिहार	-वही-
82	-वही-	157-बेलहर	श्री सिधेश्वर मरण्डी, ग्राम-पाण्डेटीका, पो.-गुगुलडीह जिला-जमुई, बिहार	-वही-
83	-वही-	-वही-	श्री अशोक रजक, ग्राम पो. नरौन, थाना-शंभुगंज, जिला-बाँका, बिहार	-वही-
84	-वही-	-वही-	श्री कृत नारायण पासवान, ग्राम-करहरिया, पो. करंजा, थाना-शंभुगंज, जिला-बाँका, बिहार	-वही-
85	-वही-	-वही-	श्री महादेव यादव, ग्राम पो. कुमरी, थाना-बेलहर, जिला-बाँका, बिहार	-वही-
86	-वही-	-वही-	श्री लक्ष्मी पासवान, ग्राम-करहरिया, पो.-करंजा, थाना-बेलहर, जिला-बाँका, बिहार	-वही-
87	-वही-	158-कटोरिया	श्री लुकाम सोरेन, ग्राम-मरिया पहाड़ी पो.-चरकापाथार थाना-सोनो, जमुई, बिहार	-वही-
88	-वही-	-वही-	श्री उपेन्द्र प्रमाणिक, ग्राम व पो.-बौसी, जिला-बाँका, बिहार	-वही-
89	-वही-	163-परवत्ता	श्री कृष्णादास चौधरी, सा. चांदमारी रोड, पो.-जी.पी.ओ. पटना, बिहार	-वही-
90	-वही-	-वही-	श्री राजेन्द्र यादव, ग्राम एवं पो.-लगार, थाना-परवत्ता, जि.-खगड़िया, बिहार	-वही-
91	-वही-	165-खगड़िया	श्री रंजित कुमार साह, मु.-मेन रोड, माईज ठाकुरबादी ग्रा. एवं पो.-खगड़िया, जिला-खगड़िया वार्ड नं.-8, बिहार	-वही-
92	-वही-	166-अलौली (अ.जा.)	श्री विनोद राम, ग्राम-शुम्भा, गाजीघाट, पो. शुम्भा, थाना-अलौली, जिला-खगड़िया, बिहार	-वही-

1	2	3	4	5
93	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	166—अलौली (अ.जा.)	श्री नन्दन सदा, ग्रा. एवं पो. बहादुरपुर, थाना—अलौली, जिला—खगड़िया, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
94	—वही—	169—सुरजगढ़ा	श्री नागो मिस्त्री, ग्राम पो. थाना—पिपरिया, लखीसराय, बिहार	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया
95	—वही—	—वही—	श्री अवध किशोर प्रसाद, ग्राम—केशोपुर, पो. थाना—कजरा लखीसराय, बिहार	—वही—
96	—वही—	—वही—	श्री उदय उदित राय, पटेलपुर, पो. एवं थाना—सूर्यगढ़ा लखीसराय, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
97	—वही—	175—अस्थावां	श्री सुरेन दास, ग्राम पो.—कोनन्द, थाना—अस्थावां जिला—नालन्दा, बिहार	—वही—
98	—वही—	—वही—	श्रीमती किरण देवी, ग्राम—गोंगरापर, थाना मानपुर, नालन्दा, बिहार	—वही—
99	—वही—	—वही—	श्री नौशाद, पुरानी शहर, बरबिगहा, बिहार	—वही—
100	—वही—	—वही—	श्री भुषण सिंह, ग्राम—खेतलपुरा, पो.—बरबिगहा, बिहार	—वही—
101	—वही—	—वही—	श्री मनोज प्रसाद सिंह ग्राम—पो. गोपालबाद सरमेरा, नालन्दा, बिहार	—वही—
102	—वही—	—वही—	श्री विद्यासागर सिंह ग्राम—खेतलपुरा, थाना—सारे नालन्दा, बिहार	—वही—
103	—वही—	—वही—	श्री शैलेन्द्र कुमार ग्राम—कोरारी, थाना—बेलछी पटना, बिहार	—वही—
104	—वही—	—वही—	श्री संजय पासवान ग्राम—पो. बिन्द, थाना—बिन्द, नालन्दा, बिहार	—वही—
105	—वही—	—वही—	श्री सुधीर पाण्डेय ग्राम—अवामों, थाना—बिन्द, नालन्दा—बिहार	—वही—

2325 5767-3

1	2	3	4	5
106	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	176—बिहार	श्री राजेश कुमार मुहल्ला—कमरुद्दीनगंज, पो.—बिहारशरीफ, नालन्दा, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
107	--वही--	179—इसलामपुर	सुश्री चन्द्रिका पासवान ग्राम—मोबारकपुर, पो.—सण्डा, नालन्दा, बिहार	--वही--
108	--वही--	180—हिलसा	श्री कमला प्रसाद ग्राम—मानपुर, पो.—धनगावों, बिहार	--वही--
109	--वही--	181—चण्डी	श्री संतोष कुमार ग्राम—फजीलापुर, पो.—दामोदरपुर बल्था खजुरा, थाना—नगरनौसा जिला—नालन्दा, बिहार	--वही--
110	--वही--	182—हरनौत	श्री राकेश कुमार ग्राम—पो.—बराह, थाना—हरनौत, नालन्दा, बिहार	--वही--
111	--वही--	--वही--	श्री सुरेन्द्र प्रसाद अकेला ग्राम पो.—खरथुआ, हरनौत, नालन्दा, बिहार	--वही--
112	--वही--	--वही--	श्री सूर्य प्रकाश पुर्षिथी ग्राम—चेरन, पो. हरनौत, नालन्दा, बिहार	--वही--
113	--वही--	--वही--	श्री अरूण कुमार सिंह ग्राम पो.—सोसंदी, थाना—रहुई, नालन्दा, बिहार	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया।
114	--वही--	200—ब्रह्मपुर	श्री शालीक राम लालू राम, गा.—उधरा टोला पो.—ब्रह्मपुर (बक्सर), बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
115	--वही--	--वही--	श्री कमलदेव ओझा रामजी ओझा, गा. एवं पो.—देवकुली, जिला—बक्सर, बिहार	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया।
116	--वही--	--वही--	श्री राजकिशोर सिंह ननकू सिंह, गा. एवं पो.—बलुआँ, जिला—बक्सर, बिहार	--वही--
117	--वही--	201—बक्सर	श्री कमल नारायण यादव ग्राम—करहंसी टोला, नोनियापुर पो.—करहंसी, जिला—बक्सर, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
118	--वही--	202—राजपुर (अ.जा.)	श्री अमर पासवान ग्राम—पो.—कोरानसराय, जिला—बक्सर बिहार	--वही--

1	2	3	4	5
119	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	203--डुमराँव	श्री सूर्यजीत सिंह बृज मोहन सिंह ग्राम एवं पो.-कसियाँ, जिला-बक्सर, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
120	-वही-	-वही-	श्री अनिल कुमार तिवारी भोलानाथ तिवारी ग्राम-पो.-पुराना तालाब, डुमराँव, जिला-बक्सर, बिहार	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया
121	-वही-	-वही-	श्री अजय कुमार अटल बबन जी राय, ग्राम-गोबिन्दपुर, जिला-बक्सर, बिहार	-वही-
122	-वही-	208--विक्रमगंज	श्री हरेन्द्र सिंह ग्राम-पो.-थाना-दावथ, जिला-रोहतास बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
123	-वही-	-वही-	श्री धरम कुमार सिंह ग्राम-कैथी, पो. संझौली, थाना-संझौली, जिला-रोहतास, बिहार	-वही-
124	-वही-	-वही-	श्री सभा चन्द चौधरी ग्राम एवं पो.-बभनौल, थाना-दावथ, जिला-रोहतास, बिहार	-वही-
125	-वही-	209--दिनारा	श्री रामअशीष सिंह मु.-फजलगंज पो.-सासाराम वार्ड नं.-7, जिला-रोहतास, बिहार	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया।
126	-वही-	214--सासाराम	श्री उमाशंकर सिंह ग्राम-ढेलावाद, अमझोर, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
127	-वही-	216--नोखा	श्रीनाथ सिंह मु. यारपुर रोड नं. 1 एन. सी. घोष पटना, पो.-जी.पी.ओ. पटना, थाना-जक्कनपुर, पटना, जिला-पटना, बिहार	-वही-
128	-वही-	-वही-	श्री सत्येन्द्र सिंह ग्राम-मौडिहों, पो. मौडीहा, थाना-नोखा, जिला-रोहतास, बिहार	-वही-
129	-वही-	217--डेहरी	श्री कामता प्रसाद ग्राम व पो.-कोचस, जिला-रोहतास, बिहार	-वही-
130	-वही-	-वही-	श्री अनिरुद्ध प्रसाद ग्राम व पो.-नावाडीह, थाना-इन्द्रपुरी जिला-रोहतास, बिहार	-वही-

1	2	3	4	5
131	बिहार राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005	217—डेहरी	श्री वेद प्रकाश मुहल्ला नील कोठी, वार्ड नं. 24, पो. डिहरी, जिला—रोहतास, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
132	--वही--	226—मखदुमपुर	श्री रमाकांत शर्मा ग्राम—फिरीजपुरा, पो.—सिकन्दरपुर थाना—शकुराबाद, जिला—जहानाबाद बिहार	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया।
133	--वही--	227—जहानाबाद	सुश्री कुसुम देवी ग्राम—मुरारचाक, सुरन्गापुर जहानाबाद, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
134	--वही--	--वही--	श्री सोहराव साह ग्राम—मोहनपुर, अमन पासर बीधा जहानाबाद, बिहार	--वही--
135	--वही--	229—बेलागंज	श्री सुनिल कुमार ग्राम एवं पो.—बालाबिगहा, गया, बिहार	--वही--
136	--वही--	--वही--	श्री अरविन्द मिश्र ग्राम—इसमाइलपुर, पो.—अइमाचौकी गया, बिहार	--वही--
137	--वही--	232—गया टाउन	श्री राजेश प्रसाद यादव रामपुर, गया, बिहार	--वही--
138	--वही--	--वही--	श्री लक्ष्मी राम नन्हों बिगहा, गया, बिहार	--वही--
139	--वही--	233—इमामगंज (अ.जा.)	श्री अमलेश कुमार सिंह ग्राम—सिद्धिखाप, पोस्ट—तिलैया जिला—गया, बिहार	--वही--
140	--वही--	234—गुरुआ	श्री उमेश प्रसाद ग्राम—महमदपुर, पोस्ट—गुरारू मिल्स, जिला—गया, बिहार	--वही--
141	--वही--	--वही--	श्री अनजर खॉ ग्राम—सुपाई, पोस्ट—श्याम नगर, नीमा जिला—गया, बिहार	--वही--
142	--वही--	--वही--	श्री सुनील कुमार ग्राम एवं पोस्ट—देकुली, जिला—गया, बिहार	--वही--

[सं. 76/बिहार—वि.स./2006]

आदेश से,

आर. क. श्रीवास्तव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2007

O.N. 24.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2005 from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reasons or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 from the State of Bihar	02-Bagaha (SC)	Sh. Ramashish Batha, Village-Borbal, P.O. Borbal, P.S.- Semran, Distt.-West Champaran, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	-do-	03-Ramnagar	Sh. Kashi Bhaitha, Village-Bishunpurwa, P.O.-Bibi Bankatwa, P.S.- Bathuwaria Bagaha-1, Distt.-West Champaran, Bihar	-do-
3.	-do-	-do-	Sh. Rajesh Oraon, Village-Hasanpur, P.O.-Chiutaha, P.S.-Semra, Distt.-West Champaran, Bihar	-do-
4.	-do-	-do-	Sh. Akhilesh Prasad, Village-Mahuidih, P.O.-Mauja Mahui, P.S.-Ramnagar, Distt.-West Champaran, Bihar	-do-
5.	-do-	-do-	Sh. Dinanath Sharma, Village-Dainmarwa, P.O.-Dainmarwa, P.S.- Ramnagar Distt.-West Champaran, Bihar	-do-
6.	-do-	08-Bettiah	Sh. Afsar Alam, Muhalla Chhawani, P. S. - Bettiah Town, Distt.-West Champaran, Bihar	-do-
7.	-do-	09-Nautan	Sh. Ramakant Prasad, Village + P.O. Sansaraiya, Bhaya-Bettiah P.S.-Mufassil Bettiah Block Nautan, Distt.-West Champaran, Bihar	-do-
8.	-do-	10-Raxaul	Sh. Jai Prakash Pachauri, Vill. Pachauri Tola P.O. Raghunathpur, P.S.-Ramgarhwa Distt. West Champaran, Bihar	-do-
9.	-do-	-do-	Sh. Anwarul Haque, Vill.-Dumariya, P.O. Kaurihar, P.S.-Raxaul, Distt.-East Champaran, Bihar.	-do-

2325 55607-4

1	2	3	4	5
10.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 from the State of Bihar	11-Sugauli	Sh. Ram Chandra Thakur, Vill.-Raghunathpur Balganga, Turkaulia, East Champaran, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
11.	-do-	12-Motihari	Sh. Satya Prakash Sahani, Vill. Bhatahan, P.O.-Pataura, P.S.-Mufassil Motihari, Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
12.	-do-	13-Adapur	Sh. Sanjay Kumar, Vill. Gamharia, P.O.-Hardia, P.S.-Raxaul, Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
13.	-do-	-do-	Sh. Jagarnath Rai, Vill. Jhitkahiya P.O.-Tikuliya, P.S.-Adapur Distt. East Champaran, Bihar	-do-
14.	-do-	-do-	Sh. Bijali Raut, Vill.+P.O.+P.S.-Harpur, Distt. East Champaran, Bihar	-do-
15.	-do-	-do-	Sh. Ravindra Kumar, Vill. Sirisiyama, P.O.-Noneyadih, PS-Nakardei, Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
16.	-do-	-do-	Sh. Vidya Nand Prasad, Vill. Baidyanathpur, P.S.-Chhauradano, Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
17.	-do-	-do-	Sh. Suresh Prasad, Vill.-Bhawanipur, P.O.-Bazar Bhawanipur, P.S.-Nakardei Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
18.	-do-	14-Dhaka	Sh. Kameshwer Baitha, Vill.-Bhagwanpur, P.O. Bahlolpur, Via Dhaka, Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
19.	-do-	15-Ghorasahan	Sh. Umesh Kumar, Vill. Raghobpur, P.O.-Ganga Pipar, P.S.-Chiraiya, Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
20.	-do-	-do-	Sh. Om Prakash Paswan, Vill. Vatiniya, P.O. Bhelwa Circle, P.S.-Ghorasahan, Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
21.	-do-	-do-	Sh. Baboo Lal Baitha, Vill. Mashan, P.O. Sirauna, P.S.-Shikarganj, Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
22.	-do-	16-Madhuban	Sh. Raj Kishore Mahto, Vill. Kodhurapur, Abhi, P.S.-Madhurapur, Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
23.	-do-	17-Pipra (SC)	Sh. Ganesh Kumar "Akela", Vill. Bherkhiyan, P.O. Tikulia, P.S. Pipra, Distt.-West Champaran, Bihar	-do-
24.	-do-	-do-	Sh. Nand Lal Paswan, Vill. Jahingra, P.O.-Damoderpur, P.S.-Pipra, Distt.-West Champaran, Bihar	-do-

1	2	3	4	5
25.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 from the State of Bihar	19-Harsidhi	Sh. Rupnarayan Ram, Vill.-Sareya Khurd (Matiyaria), P.O.-Makhua, P.S Harsidhi, Distt.-East Champaran, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
26.	-do-	20-Gobindganj	Sh. Ramnaresh Chaubey, Vill.+P.O.-Nawada, P.S.-Gobindganj, Distt.-East Champaran, Bihar	-do-
27.	-do-	-do-	Sh. Laxmi Ram, Vill.+P.O.-Pipara, Gobindganj, East Champaran, Bihar	-do-
28.	-do-	-do-	Sh. Sunil Kumar Azad, Kamalua, Mamrakh, P.S.-Malahi East Champaran, Bihar	-do-
29.	-do-	27-Basantpur	Sh. Rakesh Singh, Vill.-Kapripur, P.O.-Naviganjbazar, Distt.-Siwan, Bihar	-do-
30.	-do-	-do-	Sh. Yugul Kishore Upadhyay, Vill.-Sondhani, Saripatti P.O.-Sondhani, P.S.-Bhagwanpurhat, Distt.-Siwan, Bihar	-do-
31.	-do-	-do-	Sh. Kamaldeo Narayan Shukla, Vill.-Sondhani, Saripatti P.O.-Sondhani, P.S.-Bhagwanpurhat, Distt.-Siwan, Bihar	-do-
32.	-do-	31-Darauli	Sh. Krishna Murari Rai, At + P.O.-Belaw, Distt.-Siwan, Bihar	-do-
33.	-do-	33-Maharajganj	Sh. Ashok Paswan, Vill.-Usari, P.O.-Tarwara, Distt.-Siwan, Bihar	-do-
34.	-do-	-do-	Sh. Ashok Ram, Vill.-Sawanvighrah, P.O.-Maharajganj, Distt.-Siwan, Bihar	-do-
35.	-do-	-do-	Sh. Deodhari Ram, Vill.-Ranibari, P.O.-Rukundipur, Distt.-Siwan, Bihar	-do-
36.	-do-	-do-	Sh. Bishundeo Ram, Vill.-Sawan Vighrah, P.O.-Maharajganj, Distt.-Siwan, Bihar	-do-
37.	-do-	-do-	Sh. Banaresi Ram, Vill.-Sahpur, P.O. Shakra, P.S.-Tarwara, Distt.-Siwan, Bihar	-do-
38.	-do-	-do-	Sh. Shivchand Ram, Vill.-Pakri, P.O.-Mahualmahal, Distt.-Siwan, Bihar	-do-

1	2	3	4	5
39.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 from the State of Bihar	33-Maharajganj	Sh. Surendra Ram, Vill.-Siwan Vighra, P.O.-Maharajganj, Distt.-Siwan, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
40.	-do-	64-Runmisaidpur	Sh. Ram Krishna Kumar, At: Athari (Gargatta), P.O.-Athari, P.S. Runmisaidpur, Distt.-Sitamarhi Bihar	-do-
41.	-do-	65-Belsand	Sh. Lal Babu Yadav, F-Ganesh Prasad Yadav, Vill.-Kumhrar, P.O.-Ganga Dharampur, P.S.-Tariyani, Distt.-Sheohar, Bihar	-do-
42.	-do-	67-Sitamarhi	Sh. Shanker Bhushan, S/o Baldev Paswan, Vill.+ P.O.-Bhasar Machaha P.S.+ Distt.-Sitamarhi, Bihar	-do-
43.	-do-	71-Sursand	Sh. Maheshwar Paswan, At: Laruari, P.O.-Sutinara, P.S.-Parihar, Distt.-Sitamarhi, Bihar	-do-
44.	-do-	-do-	Sh. Vijay Kumar, At: Bangaon, P.O.-Bangaon, P.S.-Bajpatti, Distt.-Sitamarhi, Bihar	-do-
45.	-do-	-do-	Sh. Shankar Pawan, At: Sardal Patti, P.O.-Sardal Patti, P.S.-Parihar, Distt.-Sitamarhi, Bihar	-do-
46.	-do-	72-Pupri	Sh. Suresh Rai, Vill.-Dumharpatti, P.O.-Dumharpatti, P.S.-Pupri, Distt.-Sitamarhi, Bihar	-do-
47.	-do-	-do-	Md. Mofeez Nagar Panchayat Janakpur Road Ward No.-6 PS-Pupri Distt. Sitamarhi, Bihar	-do-
48.	-do-	103-Balia	Sh. Natrajan Sah At. Chhoti Ballia Bazar PO. Lakhminia Dist.-Begusarai, Bihar	-do-
49.	-do-	105-Begusarai	Sh. Chandrabhushan Paswan Vill-Aghu Tilak Tola Ward No. 2 Post-Bari Aghu Ps-Muffasil, Dist. Begusarai, Bihar	-do-
50.	-do-	-do-	Sh. Laxmi Sahu Vill-Hemanpur Post-Mohanpur PS-Bakhri Distt.-Begusarai, Bihar	-do-
51.	-do-	106-Barauni	Ms. Sapna Devi Vill-Bagwara, PO-Suhrid nagar, Distt.-Bagusarai, Bihar	-do-
52.	-do-	-do-	Sh. Khakhon Yadav Vill-Pidhau PS-Teghra Distt.-Begusarai, Bihar	-do-
53.	-do-	107-Bachhawara	Sh. Yugeswar Gop Vill-Bhagwanpur PO-Mhadauli P.S.-Bhagwanpur Distt.-Begusarai, Bihar	-do-
54.	-do-	-do-	Sh. Ashok Rai, Vill-Salempur, Panchayat- Fateha, P.S. Anchal-Bachhawara PO- Samasipur Bhith, Dist-Begusarai, Bihar	-do-

1	2	3	4	5
55.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 from the State of Bihar	107-Bachhawara	Tilakdhari Rai Vill+PO-Maranchi P.S.-Bachhawara Dist-Begusarai, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
56.	-do-	108-Cheria Bariyarpur	Sh. Dina Nath Paswan, Vill-Gopalpur, P.O.-Akopur, Distt.-Begusarai, Bihar	-do-
57.	-do-	109-Bakhri(SC)	Sh. Nandkishore Sada, Vill-Sadipur, PO-Rampur, Dist.-Begusarai, Bihar	-do-
58.	-do-	131-Sikti	Sh. Mangal Kumar Ram, Vill-Kaun Pokhar, PO-Aamgachhi, PS-Sikty, Distt-Araria, Bihar	-do-
59.	-do-	-do-	Md- Ismail Azad, Vill-Khania Bad Lal Pani, PS-Fatepur (Terhagachh) Dist.-Kishanganj, Bihar	-do-
60.	-do-	-do-	Sh. Khushi Lal Sah, Vill+PO-Gaiyari, PS-Araria, Distt-Araria, Bihar	-do-
61.	-do-	132-Jokihat	Sh. Bhuma Nand Risi Vill-Dohmana PO-Bagnagar, PS-Mahalgan, Distt-Araria, Bihar	-do-
62.	-do-	133-Bahadurganj	Sh. Mahfuz Alam, Vill-Harwadanga PO+PS-Dighalbank, Dist-Kishanganj, Bihar	-do-
63.	-do-	-do-	Sh. Shyan Nr. Singh Vill+PO+PS-Dighalbank, Dist-Kishanganj, Bihar	-do-
64.	-do-	-do-	Sh. Shrikant Pandey Vill-Harwadanga PO+PS-Dighalbank, Dist-Kishanganj, Bihar	-do-
65.	-do-	-do-	Sh. Hari Lal Ram Vill-Kuthhalia PO-Bibiganj, PS-Kodhhbari/Dighalbank, Dist-Kishanganj, Bihar	-do-
66.	-do-	134-Thakurganj	Sh. Shyam Sunder Thakur, Vill+PO-Churli, PS-Galgalia Thakurganj, Dist-Kishanganj, Bihar	-do-
67.	-do-	135-Kishanganj	Sh. Indradev Paswan, Vill-Khagra, Pokhar, Ward No. 24 PS+Dist-Kishanganj, Bihar	-do-
68.	-do-	-do-	Sh. Noorul Alam, Vill-Pachhara, PO-Dhanpatganj, PS-Kochadhaman Dist-Kishanganj, Bihar	-do-
69.	-do-	147-Pirpainti	Sh. Anju Devi At-Bakharpur, PO-Bakharpur, PS-Pripanity, Distt-Bhagalpur, Bihar	-do-
70.	-do-	-do-	Sh. Harivansh Singh, At+PO-Babupur Distt-Bhagalpur, Bihar	-do-
71.	-do-	152-Bihpur	Sh. Ajay Ku. Das, S/o-Sheo Shankar Das Vill-Raghopur, Hat, Po-Bhagalpur, Distt. Bhagalpur, Bihar	-do-
72.	-do-	-do-	Sh. Suresh Pandit, S/o Mahavir Pandit Vill/PO-Tulsipur Thana-Kharik, Dist-Bhagalpur, Bihar	-do-

2325 9767-5

1	2	3	4	5
73.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 from the State of Bihar	154-Amarpur	Sh. Hira Lal Mandal, Vill-Pania, P.O.-Bhurna Anchal-Bounsi, PS-Barahat, Dist.-Banka, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
74.	-do-	-do-	Ms. Mandeshwari Rao, AT-Domodih PO-Kumarpur, PS-Fullidumar Distt-Banka, Bihar	-do-
75.	-do-	-do-	Sh. Shahjahan Khan, Vill-Sangrampur Po-Laugaon, Distt-Banka, Bihar	-do-
76.	-do-	-do-	Sh. Kalanand Singh Vill-Kusaha, PO-Gunlani Kusaha PS-Shambhuganj Distt-Banka, Bihar	-do-
77.	-do-	155-Dhuraiyat(SC)	Sh. Brahamdeo Rajak Vill-Barouna PO-Barouna, PS-Barahat, Distt-Banka, Bihar.	-do-
78.	-do-	-do-	Sh. Manik Das, Vill-Jhikulia, PS-Jhikulia, Distt-Banka, Bihar	-do-
79.	-do-	-do-	Sh. Rajesh Kumar Vill-Rangaon, PO-Rangaon PS-Dhoraiya, Distt-Banka, Bihar	-do-
80.	-do-	156-Banka	Sh. Pramod Paswan, Karharya Ward No. 6 Distt-Banka, Bihar	-do-
81.	-do-	-do-	Sh. Bindeshwari Yadav, Vill- Bedachak PO-Lakhmauri, Distt-Banka, Bihar	-do-
82.	-do-	157-Belhar	Sh. Singheshwar Marandy, Vill-Pandarhika, PO-Guguldin, Dist-Jamui, Bihar	-do-
83.	-do-	-do-	Sh. Ashok Rajak, Vill+PO-Naratun, PS-Shambhuganj, Banka Bihar	-do-
84.	-do-	-do-	Sh. Krit Narayan Paswan, Vill-Karharia, PO-Karanjha, PS-Shambhuganj, Banka Bihar	-do-
85.	-do-	-do-	Sh. Mahadeo Yadav, Vill+PO-Kumri, PS-Belhar, Dist-Banka, Bihar	-do-
86.	-do-	-do-	Sh. Lakshmi Paswan Vill-Karharia, PO-Karanja, PS-Shambhuganj, Banka Bihar	-do-
87.	-do-	158-Katoria	Sh. Lukas Soran Vill-Mariapahari PO-Charka Pathar Sono, Jamui, Bihar	-do-
88.	-do-	-do-	Sh. Upendra Pramanik Vill+PO-Baunsi, Dist-Banka, Bihar	-do-
89.	-do-	163-Parbatta	Sh. Krishnadas Choudhary Vill-Chandmari Road, P.O. G.P. O-Patna, Patna, Bihar.	-do-
90.	-do-	-do-	Sh. Rajendra Yadav Vill+PO-Lagar, P.O-Parbatta, Distt-Khagaria, Bihar	-do-
91.	-do-	165-Khagaria	Sh. Ranjit Kumar Sah Mo-Main Road, Maiji Thakurbari, Khagaria, Vill+PO-Khagaria, Distt-Khagaria Ward No.-8 Bihar	-do-

1	2	3	4	5
92.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 from the State of Bihar	166-Allouli(SC)	Sh. Binod Ram Vill-Shumbha, Shumb Gajighat, PO. Shumba PS-Allouli, Distt-Khagaria, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
93.	-do-	-do-	Sh. Nandan Sada Vill+PO-Bahadurpur PS-Allouli Distt-Khagaria, Bihar	-do-
94.	-do-	169-Surajgarha	Sh. Nago Mistry Vill-PO-PS-Piparia, Lakhisarai, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses in the manner Required by law
95.	-do-	-do-	Sh. Awadesh Kishore Prasad Keshopur, PO+PS-Kajra, Lakhisarai, Bihar	-do-
96.	-do-	-do-	Sh. Uday Udit Roy Patelpur PO-PS-Surajgarha Lakhisarai, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
97.	-do-	175-Asthawan	Sh. Suren Dass Vill/PO-Konand PS-Asthawan, Nalanda, Bihar	-do-
98.	-do-	-do-	Ms. Kiran Devi Vill-Gongriper PS-Manpur, Nalanda, Bihar	-do-
99.	-do-	-do-	Sh. Naushad Purani Shahar Barbiga, Bihar	-do-
100.	-do-	175-Asthawan	Sh. Bhushan Singh Vill-Khetalpura PO-Barbiga, Bihar	
101.	-do-	-do-	Sh. Manoj Prasad Singh Vill/Po-Gopalbad, Sarmera, Nalanda, Bihar	-do-
102.	-do-	-do-	Sh. Vidya Sagar Singh Vill-Khetalpura, PS-Sare, Nalanda, Bihar	-do-
103.	-do-	-do-	Sh. Shailendra Kumar Vill-Korari, PS-Belchi, Patna, Bihar	-do-
104.	-do-	-do-	Sh. Sanjay Paswan Vill+PO+PS-Bind, Nalanda, Bihar	-do-
105.	-do-	-do-	Sh. Sudhir Pandey Vill/Amawan PS-Bind, Nalanda, Bihar	-do-
106.	-do-	176-Bihar	Sh. Rajesh Kumar Moh: Qamruddingunj P.P.-Biharshrif, Nalanda, Bihar	-do-
107.	-do-	179-Islampur	Sh. Chandrika Paswan Vill-Mobarakpur P.O-Sanda (Nalanda), Bihar	-do-
108.	-do-	180-Hilsa	Sh. Kamla Prasad Vill-Manpur P.O.-Dhangawan (Nalanda), Bihar	-do-
109.	-do-	181-Chandi	Sh. Santosh Kumar Vill-Fazilapur, PO-Damodarpur Balda Khajura PS-Nagarnausa Distt-Nalanda, Bihar	-do-
110.	-do-	182-Harnaut	Sh. Rakesh Kumar Vill/PO-Sewani, P.S-Bakhtiyarpur Patna, Bihar	-do-
111.	-do-	-do-	Sh. Surendra Prasad Akela Vill/Po-Khartua, Harnaut, Nalanda, Bihar	-do-

1	2	3	4	5
112.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 from the State of Bihar	182-Harnaut	Sh. Sury Prakash Purusharthi Vill-Cheran, PO-Harnaut, Nalanda, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
113.	-do-	-do-	Sh. Arun Kumar Singh Vill/PO-Sosandi PS-Rahui, Nalanda, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses Required by law
114.	-do-	200-Barhampur	Sh. Shalik Ram Lalu Ram At-Udhara Tola PO-Dallupur Dist-Buxar, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
115.	-do-	-do-	Sh. Kamaldeo Ojha Ramji At+PO-Devkuli Dist-Buxar, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses in the Manner Required by law
116.	-do-	-do-	Sh. Raj Kishor Singh Nanhku Singh At+PO-Baluan Dist-Buxar, Bihar	-do-
117.	-do-	201-Buxar	Sh. Kamal Narayan Yadav VIII-Karhanshi Tola Noniyapur PO-Karhansi, Distt-Buxar Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
118.	-do-	202-Rajpur(SC)	Sh. Amar Paswan Vill+PO-Koransarai Distt-Buxar, Bihar	-do-
119.	-do-	203-Dumraon	Sh. Suryajit Singh Brij Mohan Singh At+PO-Kasiyan, Distt-Buxar, Bihar	-do-
120.	-do-	-do-	Sh. Anil Kumar Tiwari Bholanath Tiwari Vill.+PO-Purana Talab, Dumraon, Distt-Buxar, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
121.	-do-	-do-	Sh. Ajay Kumar Atal Babanji Rai At Gobindpur, Distt-Buxar, Bihar	-do-
122.	-do-	208-Bikranganj	Sh. Harendra Singh Vill.+PO+PS-Dawath, Dist-Rohtas, Bihar	-do-
123.	-do-	-do-	Sh. Dharam Kumar Singh Vill. Kaithi, PO+PS+Sanjhauli, Distt-Rohtas, Bihar	-do-
124.	-do-	-do-	Sh. Shabhachand Choudhary Vill.+PO Babhnaul PS. Dawath Distt-Rohtas, Bihar	-do- -do-
125.	-do-	209-Dinara	Sh. Ram Ashish Singh Moh-Fazalganj, PO Sasaram, Ward No.-7 Distt. Rohtas, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses in the manner required by law
126.	-do-	214-Sasaram	Sh. Uma Shankar Singh Vill- Dhelabad, PO Amjhor, Distt. Rohtas, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
127.	-do-	216-Nokha	Sh. Srinath Singh R/P Yarpur Road No. 1 N.C. Ghosh Patna, PO-GPO Patna Jakkanpur, Distt. Rohtas, Bihar	-do- -do-

1	2	3	4	5
128.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 from the State of Bihar	216-Nokha	Sh. Satyendra Singh Vill+PO Moudihan, PS-Nokha, Distt. Rohtas, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
129.	-do-	217-Dehri	Sh. Kamta Prasad Vill+PO Kochas, Distt. Rohtas, Bihar	-do-
130.	-do-	-do-	Sh. Anirudh Prasad Vill+PO Nawadih, PS Indrapuri, Distt. Rohtas, Bihar	-do-
131.	-do-	-do-	Sh. Ved Prakash Mohalla-Neel Kothi, Ward No. 24, PO Dehri Distt. Rohtas, Bihar	-do-
132.	-do-	226-Makhdumpur	Sh. Rama Kant Sharma Vill Pripjura PO Sikendarpur PS Shakurabad Distt. Jehanabad Bihar	Failure to lodge any account of election expenses in the manner required by law
133.	-do-	227-Jehanabad	Ms. Kusum Devi Vill Murarchak, Surungapur, Distt. Jehanabad, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
134.	-do-	-do-	Sh. Sohrao Sah Mohanpur Amain Paras Bigha, Distt-Jehanabad, Bihar	Failure to lodge any account of election expenses
135.	-do-	229 Belanganj	Sh. Sunil Kumar Vill & PO-Bala Bigha Distt. Gaya, Bihar	-do-
136.	-do-	229 Belanganj	Sh. Arbind Mishra Vill Ismailpur, PO-Aima, Chauki Distt. Gaya, Bihar	-do-
137.	-do-	132-Gaya town	Sh. Rajesh Prasad Yadav Rampur, Distt. Gaya, Bihar	-do-
138.	-do-	-do-	Sh. Lakshmi Ram Nanho Bigha, Distt. Gaya, Bihar	-do-
139.	-do-	233-Imamgunj (SC)	Sh. Amlesh Kumar Singh Vill Sidhikhap, PO-Tilaiya, Distt. Gaya, Bihar	-do-
140.	-do-	234-Gurua	Sh. Umesh Prasad Vill Mohamadpur, PO-Guraru Mills, Distt. Gaya, Bihar	-do-
141.	-do-	-do-	Sh. Anjar Khan Vill Supai, PO-Shayam Nagar Necma, Distt. Gaya, Bihar	-do-
142.	-do-	-do-	Sh. Suneel Kumar Vill+PO-Dekuli, Distt. Gaya, Bihar	-do-

[No. 76/BR-LA/2006]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

2325 48707-6

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2007

आ. अ.25.— यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2006 में, नीचे की सारणी में, उनके नाम के सामने स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा उल्लिखित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्वती बनाए गए नियमों के द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने के बाद भी उक्त असफलता के लिए किसी प्रकार का कोई कारण या न्यायोचित्य प्रस्तुत नहीं किया है, या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ-राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	1-मेकलीगंज (अ.जा.)	श्री कुमार बर्मन, ग्राम-निज मेखलीगंज पो.ऑ.-दारीपट्टाने, पी.एस.-हल्दीबारी, जिला-कूच बिहार।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	5-कूच बिहार पश्चिम	श्री पारेश चन्द्र डे, ग्राम-टांगनमारी, पो.ऑ.-राजारहाट, जिला-कूच बिहार।	-वही-
3.	5-कूच बिहार पश्चिम	श्री सामछुल हुडा, ग्राम और पो. ऑ.-देवानाहाट, पी.एस.-कोतवाली, जिला-कूच बिहार।	-वही-
4.	7-दिनहाटा	श्री मोकबुल हुसैन सरकार, ग्राम व पो. ऑ.-कालमाटी, पी.एस.-दिनहाटा, जिला-कूच बिहार।	-वही-
5.	9-तृफानगंज (अ.जा.)	श्री अनिल कुमार, ग्राम-सालबारी, पो.ऑ.-नागुरहाट, जिला-कूच बिहार।	-वही-
6.	33-कुशमण्डी (अ.जा.)	श्री गौरांग बर्मन, ग्राम-पुपरा, पो.ऑ.-सरला, जिला-दक्षिण दिनाजपुर।	-वही-
7.	36-तपन (अ.ज.जा.)	श्री मुंशी तुडु, ग्राम-दिने मालान्चा, पो.ऑ.-बालापुर, पी.एस.-तपन, जिला-दक्षिण दिनाजपुर।	-वही-
8.	40-गजौल (अ.ज.जा.)	श्री सदानन्द बिस्वकर्माकर, ग्राम-कादुबारी, पो.ऑ.-गजौल, जिला-बालापुर।	-वही-

1	2	3	4
9.	40—गजोल (अ.ज.जा.)	श्री लक्ष्मण टुडु, ग्राम—धमुआ, पो.ऑ.—राजादीधी, जिला—माल्दा ।	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10.	41—खड़वा	श्री सहाबुद्दीन, ग्राम—निशोहोदोला, पो.ऑ.—सिंगिया, जिला—माल्दा ।	—वही—
11.	42—हरिशचन्द्रपुर	श्री शंकर दास, ग्राम व पो.ऑ.—हरदामनगर, पी.एस.—हरिशचन्द्रपुर, जिला—माल्दा ।	—वही—
12.	45—माल्दा (अ.जा.)	श्री तपेश सरकार, ग्राम—रंगाविता घोषपारा, पो.ऑ.—गजोल, जिला—माल्दा ।	—वही—
13.	45—माल्दा (अ.जा.)	श्री द्विजेन बर्मन, ग्राम—कालीपुर, पो.ऑ.—गोपालपुरहाट, जिला—माल्दा ।	—वही—
14.	46—इंगलिश बाजार	श्री चन्द्रकान्त राय, बाबलाबोन, पो.ऑ.—अहोरा, पी.एस.—गजो, जिला—माल्दा ।	—वही—
15.	70—पलाशिपारा	श्री सुमित्रा मंडल, ग्राम—मुबारकपुर, पो.ऑ.—हरिपुर, जिला—नदिया ।	—वही—
16.	70—पलाशिपारा	श्री दौलत हुसैन, ग्राम व पो.ऑ.—बारूईपारा, पी.एस.—तेहाट्टा, जिला—नदिया ।	—वही—
17.	71—नकाशिपारा	श्री समीर सरकार, ग्राम व पो.ऑ.—उत्तर बहिरगाछी, पुरबापारा, जिला—नदिया ।	—वही—
18.	72—कालीगंज	श्री हबीबुर रहमान, ग्राम व पो.ऑ.—राधाकान्तपुर, पी.एस.—कालीगंज, जिला—नदिया ।	—वही—
19.	73—चपरा	श्री विद्युत बिश्वास, ग्राम—मल्लेगापारा (नातुनपारा), पी.एस.—बेताई, पी.एस.—तेहात्ता, जिला—नदिया ।	—वही—
20.	73—चपरा	श्री हाफिजुर रहमान मंडल, लक्ष्मीगाछा, पो.ऑ.—तालुखुदा, पी.एस.—चपरा, जिला—नदिया ।	—वही—
21.	73—चपरा	श्री आसित मुन्दरी, ग्राम—सोनदाहापारा, पो.ऑ.—नतना, पी.एस.—तेहाट्टा, जिला—नदिया ।	—वही—
22.	74—कृष्णगंज (अ.जा.)	श्री कृष्णचन्द्र बिश्वास, ग्राम—शिवनीबाश बसाकपारा, पो.ऑ.—शिवनीबाश, नदिया पी.एस.—कृष्णगंज ।	—वही—

1	2	3	4
23.	75-कृष्णनगर पूर्व	श्री मणिका बिस्वास, दारगा लेन, पो.ऑ.-कृष्णनगर, जिला-नदिया।	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
24.	76-कृष्णनगर पश्चिम	श्री हारान बिस्वास, ग्राम-गाबुरकुली, पो.ऑ.-धुबलिया टी.बी. हास्पिटल, नदिया	-वही-
25.	78-शान्तिपुर	श्री उज्जाल नन्दी, 2, बेलपेकुर लेन, पो.ऑ. और पी.एस.-शान्तिपुर, जिला-नदिया।	-वही-
26.	79-हंसखाली (अ.जा.)	श्री दुलाल बिस्वास, ग्राम-भागाबातीताला, पो.ऑ.-दक्षिणपारा, जिला-नदिया।	-वही-
27.	80-रणघाट पूर्व (अ.जा.)	श्री कमल मल्लिक, ग्राम-नेउलिया, पो.ऑ.-पूर्व बिष्णुपुर, पी.एस.-चकदाहा, जिला-नदिया।	-वही-
28.	80-रणघाट पूर्व (अ.जा.)	श्री कुमारेश राय, ग्राम-दुर्गापुर, पो.ऑ.-पानपारा, पी.एस.-रणघाट, जिला-नदिया।	-वही-
29.	83-हरिनघाट	श्री गोरा चन्द मंडल, ग्राम-बैकारा, पो.ऑ.-हरिपुकुरिया, पी.एस.-हरिनघाट, जिला-नदिया	-वही-
30.	84-बगडाहा (अ.जा.)	श्री चंदन मल्लिक, ग्राम-सं. 1, हेलेनचा कालोनी, पी.एस.-बगडाहा, जिला उत्तर-24 परगनास।	-वही-
31.	85-बोंगाव	श्री माखन राय, ग्राम-व पो.ऑ.-भंडार कोला, पी.एस.-गोपाल नगर, जिला उत्तर-24 परगनास।	-वही-
32.	86-गईघाट	श्री तन्मय मित्रा, ब्लॉक-डी, फ्लैट 22, गवर्नमेंट हाउसिंग स्टेट, डॉ. सुन्दरी मोहन एवेन्यू, कोलकाता-14	-वही-
33.	86-गईघाट	श्री बिप्लव हालदर, 87 नं., हब्रा (नातुनग्राम), पो.ऑ.-प्रफुल्लनगर, पी.एस. हब्रा, जिला उत्तर-24 परगनास।	-वही-
34.	87-हब्रा	श्री अब्दुल हामिद मण्डल, ग्राम दांचघरिया, पो.ऑ.-कुमरा काशिपुर, पी.एस. हब्रा, जिला उत्तर-24 परगनास पश्चिम बंगाल।	-वही-
35.	89-अमडांगा	श्री नारायण घोष, शिवालया, पो.ऑ. दीघा, पी.एस. बारामत, जिला उत्तर-24 परगनास, पश्चिम बंगाल।	-वही-

1	2	3	4
36.	89-अमडांगा	श्री शेख नूर मोहम्मद, ग्राम खेलिया, पो.ऑ. अरखाली, अमडांगा, पी.एस. अमडांगा, जिला उत्तर 24-परगना, पश्चिम बंगाल ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
37.	90-बारासत	श्री अशोक मुखर्जी, सुरेन्द्रनाथ कॉलोनी, नाबापल्ली, बारासत, जिला उत्तर 24 परगना।	-वही-
38.	91-राजारहाट (अ. जा.)	श्री तन्मय मंडल, एच. डी. 2/2, निबास अपार्टमेंट, बाथुईपारा, बागुईयाटी, पो. ऑ. अश्विनीनगर, पी. एस. राजारहाट, जिला उत्तर 24 परगना।	-वही-
39.	91-राजारहाट (अ. जा.)	श्री सुकुमार राय, ग्राम काडा, पो. ऑ. अकन्दाकेशरी, पी. एस. राजारहाट, जिला उत्तर 24 परगना ।	-वही-
40.	91-राजारहाट (अ. जा.)	श्रीकांत बाला, ए-15, वी. आई. पी. पार्क, पो. ऑ. प्रफुल्लकानन, कोलकाता-101	-वही-
41.	92-देगंगा	श्री मफीदुल हक साहजी, ग्राम सोहाय, पो. ऑ. सोहाय कुमारपुर, पी. एस. देगंगा, जिला उत्तर 24 परगना, पिन-743423	-वही-
42.	92-देगंगा	मो. कुर्रुज्जमान, ग्राम देवान अती, पो. ऑ. हादिपुर, पी. एस. देगंगा, जिला उत्तर 24 परगना ।	-वही-
43.	92-देगंगा	मो. याकुब, 2/1, भुक्कैलाश रोड, पी. एस. इकबालपुर, कोलकाता-700 023	-वही-
44.	92-हरोआ (अ. जा.)	श्री मृत्युंजय मंडल, ग्राम ब्राह्मण चाक, पो. ऑ. सोनापुकुर, पी. एस. हरोआ, जिला उत्तर 24- परगना, पश्चिम बंगाल।	-वही-
45.	97-हरोआ (अ. जा.)	श्री हजारी लाल मंडल, ग्राम मोहनपुर, पो. ऑ. बाचरा, मोहनपुर, पी. एस. हरोआ, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल ।	-वही-
46.	97-हरोआ (अ. जा.)	श्री लक्षण दास, ग्राम दक्षिण गर्धी, पो. ऑ. और पी. एस. हरोआ, जिला उत्तर 24- परगना, पश्चिम बंगाल ।	-वही-
47.	99-हिंगलगंज (अ. जा.)	श्री परिमल मिस्त्री, ग्राम एवं पो. ऑ. हेमनगर, पी. एस. हिंगलगंज, जिला उत्तर 24-परगना ।	-वही-
48.	128-बीजपुर	श्री सुबीर बिश्वास, एम2/सी, रेलवे क्वार्टर, पो. ऑ. कंचरापारा, पी. एस. बीजपुर, जिला उत्तर 24-परगना, पिन-743145	-वही-
49.	131-जगतदल	श्री परेश चन्द चौधरी, गरूलिया मेन रोड, पो. ऑ. गरूलिया, जिला उत्तर 24 परगना ।	-वही-
50.	131-जगतदल	श्री सुजीत समाजपति, शांतिनगर प्रालटा, पो. ऑ. बेंगाल एनामेल, पिन-743122, जिला उत्तर 24- परगना ।	-वही-
51.	132-नोआपाडा	श्री तपस सरकार, 89, स्कूल रोड, कालियानिबास (उत्तर) पो. ऑ. नोनाचंदानपुकुर, जिला उत्तर 24-परगना ।	-वही-

1	2	3	4
52.	134-खारडाह	श्री अमाल हालदार, ग्राम माथारांगी, पो. ऑ. नीलगंज बाजार, पी. एस. टिटागढ़, उत्तर 24 परगना	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
53.	136-कमरहाटी	श्री शंभु दत्ता, नातुन पुकुर (दक्षिणी), नातुन पुकुर रोड, पो. ऑ. बारासत।	-वही-
54.	137-बड़ानगर	श्री त्रिदिब मिन्हा, 7, सृष्टि धर दत्ता लेन, कोल-6	-वही-
55.	139-बेलगाचिया (पूर्व)	श्री नितार्ई दत्ता, 172, दक्षिण दारी रोड, कोलकाता-700 048	-वही-
56.	139-बेलगाचिया (पूर्व)	श्री सुजीत बोस, (निर्दलीय), 81/1, कवि नवीन सेन रोड, कोलकाता-700 028	-वही-
57.	139-बेलगाचिया (पूर्व)	श्री सुभाष चक्रवर्ती, (निर्दलीय), पनसिला, पो. ऑ. पनसिला, सोदेपुर, जिला उत्तर 24 परगना	-वही-
58.	146-चौरिंधी	श्री आदित्य नियोगी, कुन्डु लेन, खमारपारा, पो. ऑ. बंसबेरिया, जिला हुगली।	-वही-
59.	146-चौरिंधी	मो. मुस्तफा, 18, कवितीर्थ सरानी, कोलकाता-700 023	-वही-
60.	146-चौरिंधी	श्री पन्नालाल चौधरी, 15/ए, अहिरी पुकुर, दूसरा लेन, पो. एस. कराया, कोलकाता-19	-वही-
61.	146-चौरिंधी	श्री रघुनाथ भौमिक, ग्राम जायपुर, पो. ऑ. और पी. एस. मोगरा, जिला हुगली, पिन-712148	-वही-
62.	147-कवितीर्थ	श्री कपिल देव यादव, 6बी/2 एफ एल, डेन्ट मिशन रोड, कोलकाता-23	-वही-
63.	147-कवितीर्थ	श्री राजोश शर्मा, 49/5/एच/14, कार्ल मार्क्स सरानी, कोलकाता-23	-वही-
64.	147-कवितीर्थ	श्री शिव पूजन गुप्ता, 49/5/एच/14, कार्ल मार्क्स सरानी, कोलकाता-23	-वही-
65.	148-अलीपार	अजय कुमार दास, 18 बी, गोबिन्द घोषाल लेन, पो. ऑ. भवानीपुर, पी. एस. कालीघाट, कोलकाता-25	-वही-
66.	148-अलीपार	श्री अर्शम साहा, 64, चेतला रोड, कोलकाता-27	-वही-
67.	148-अलीपार	श्री देव कुमार दास, 35 बी, मदन पाल लेन, कोलकाता-25	-वही-
68.	148-अलीपार	श्री प्रसन्ता कुमार मैती, 7/1, गोपल नगर रोड, कोलकाता-27	-वही-
69.	149-राशाबिहारी एवेन्यू	श्री छीपांकर नसकार, ग्राम सोलगोहालिया, पो. ऑ. मदारत, पी. एस. बारुईपुर, कोलकाता-700144	-वही-
70.	149-राशाबिहारी एवेन्यू	श्री काजल दास, 13 (एच टी-3), बोत्राली मंडल रोड, कोलकाता-700 026	-वही-
71.	149-राशाबिहारी एवेन्यू	श्री प्रणव भट्टाचार्य, 12 ए, सतीश मुखर्जी रोड, (भूतल), कोलकाता-700 026	-वही-
72.	149-राशाबिहारी एवेन्यू	श्री शंकर दाम, 22 विजय बोस रोड, कोलकाता-700 025	-वही-

1	2	3	4
73.	152—बालीगंज	श्री राबिन बनर्जी, 143/2, पिकनिक गार्डन रोड, कोलकाता—39	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
74.	152—बालीगंज	श्री शुभाशिश दास, 23/2, गणेश घोष लेन, कोलकाता—39	—वही—
75.	152—बालीगंज	श्री सुशांत कुमार घोष, 99 महात्मा गांधी रोड, कोलकाता—82	—वही—
76.	152—बालीगंज	श्री मुख्तार अहमद, 38/एच/5, समसुल हुडा रोड, कोलकाता—17	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
77.	152—बालीगंज	श्री शशांक शुभ्र मुखर्जी, 2 डब्ल्यू, कार्नफील्ड रोड, कोलकाता—19	—वही—
78.	153—इन्टाल्ली	श्री खालिद एबादुल्ला, 3, मेहर अली रोड, कोलकाता—700 017	—वही—
79.	153—इन्टाल्ली	श्री तवलद हुसैन, 35/2 बी, ए. जे. सी. बोस रोड, कोलकाता—700 017	—वही—
80.	155—बेलियाघाट	श्री नब कुमार मंडल, 45/एच/9, बेलियाघाट मेन रोड, कोलकाता—700 010	—वही—
81.	156—सीयालदाह	श्री दयानन्द प्रसाद, 154, बी. बी. गांगुली स्ट्रीट, कोलकाता—12	—वही—
82.	156—सीयालदाह	श्री प्रोद्युत कुमार घोष, 9, नितार् बाबू लेन, कोलकाता—12	—वही—
83.	156—सीयालदाह	श्री तरुण कुमार कर, 26, प्रेम चन्द बोराल स्ट्रीट, कोलकाता—12	—वही—
84.	157—विद्यासागर	श्री अजय कुमार साहा, 17ए, राधानाथ मल्लिक लेन, कोलकाता—12	—वही—
85.	157—विद्यासागर	श्री साधन बिश्वास, 115ए, राजा राममोहन सरानी, कोलकाता—9	—वही—
86.	162—हावड़ा (उत्तर)	श्री संजय चौधरी, 3/1/सी, पंजारी पारा लेन, सालकिया, हावड़ा	—वही—
87.	162—हावड़ा (उत्तर)	श्री सरवन शा, 15, गुहा रोड, घुसुरी, हावड़ा—711 107	—वही—
88.	162—हावड़ा (उत्तर)	श्री सोमेश दास, पी—17, धारसा गर्वनमेंट कॉलोनी, पो. ऑ. जी. आई. पी. कालोनी, पी. एस. जगाचा, हावड़ा।	—वही—
89.	164—हावड़ा (दक्षिण)	श्री स्वामी नाथ, प्रसाद 48/2, दक्षिण बक्सराह पहला बाए लेन हावड़ा—711 109	—वही—
90.	165—शिवपुर	श्री धर्मपाल सिंह, मनिकपुर, पो. ऑ. डेल्टा मिल हावड़ा	—वही—
91.	166—डोमजुर	श्री अमलचन्द्र दास, निसचिन्दा पो. ऑ. घोष पारा, पी. एस. बाली, हावड़ा	—वही—
92.	169—सॉकरेल (अ. जा.)	श्री राबिन सर्कर, गॉव पो. ऑ. धुलागोरी, पी. एस. सॉकरेल, हावड़ा।	—वही—

1	2	3	4
93.	169—सॉकरेल (अ. जा.)	श्री गोपाल मंडल, गाँव व पो. ऑ. दक्षिण सॉकरेल, पी. एस. सॉकरेल, हावड़ा-711313	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
94.	171—उलबेरिया (दक्षिण)	श्री जारजिस अहमद मीड़डया, गाँव बौलखाली (दासपारा), पो. ऑ. बुडीखाली, जिला हावड़ा	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
95.	173—बगनान	श्री अकील अली, हेतामपुर, पो. ऑ. एवं पी. एस. बगनान, जिला हावड़ा	—वही—
96.	233—बन्दुओं (अ. ज. जा.)	श्री बीर सिंह मुरमु, गाँव चिरुदी, पो. ऑ. चिरुदी, राधानगर, गाँव पुरुलिया	—वही—
97.	233—बन्दुओं (अ. ज. जा.)	श्री लक्ष्मी कान्ता सबर, गाँव फुलझोड़े, (खरीयादी), पो. ऑ. फुलझोड़े, पी. एस. बड़ाबाजार, जिला पुरुलिया	—वही—
98.	243—हुरा	श्री प्रकाश सी. एच. बौरी गाँव और पो. ऑ. हरमजंगा, जिला पुरुलिया	—वही—
99.	244—तालडॉंगरा	श्री विश्वनाथ सरेन, गाँव रमबोनी, पो. ऑ. पथरदोबा, पी. एस. सिमलापल, जिला बंकुरा	—वही—
100.	245—रायपुर (अ. ज. जा.)	श्री मलिनद्रा नाक टुडु, गाँव मुरकम, द्वारा सी. पी. आई. (एम. एल.) कार्यालय, कदमगढ़, पी. एस. रायपुर, जिला बंकुरा	—वही—
101.	246—रानीबान्ध (अ. ज. जा.)	श्री विश्वनाथ मंडी, गाँव पुंशया, पो. ऑ. कमदगढ़, पी. एस. बरीकुल, जिला बंकुरा	—वही—
102.	247—इन्दपुर (अ. जा.)	श्री स्निग्धा मंगल, गाँव और पो. ऑ. इन्दपुर, पी. एस. इन्दपुर, जिला बंकुरा	—वही—
103.	249—गंगाजलघाटी (अ. जा.)	श्री मोहनलाल प्राणावनंदा मल्लिक, पाली (पश्चिम), पो. ऑ. केनदुआदीधि, जिला बंकुरा	—वही—
104.	249—गंगाजलघाटी (अ. जा.)	स्वपन बौरी, गाँव जोंगपुर, पो. ऑ. बनजोरा, पी. एस. मेझाहिया, जिला बंकुरा	—वही—
105.	250—बास्जोरा	श्री प्रशान्त हेमब्रम सी. पी. आई. (एम. एल.), आफिस, बेलियाटोरे (बरामाइल) पिन-722 203	—वही—
106.	251—बंकुरा	श्री दुर्गादास तुंडू गाँव बंधाडांगा, पो. ऑ. उखरादीही	—वही—
107.	256—सोनामुखी (अ. जो.)	दिपाली साहा, सोनामुखी लालबाजार थाना गौरा, पो. ऑ. सोनामुखी, जिला बंकुरा	—वही—
108.	256—सोनामुखी (अ. जा.)	तारिणी रॉय, सी. पी. आई. (एम. एल.), रामपुर ऑफिस, पो. ऑ. हमीरहाटी, जिला बंकुरा	—वही—

[सं. 76/प. बं.-वि. स./2007(1)]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th May, 2007

O.N. 25.—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the West Bengal Legislative Assembly, 2006 held from the constituency specified in column (2) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder as shown in column (4) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the election Commission, or after considering the representation, if any, made by them the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure.

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidates	Reason for Disqualification
1	2	3	4
1.	1-Mekhliganj (SC)	Sh. Anata Kumar Barman, Vill. Niz Mekhliganj, P.O. Daripattane, P.S. Haldibari, Distt. Cooch Behar.	Failed to lodge account of election expenses,
2.	5-Cooch Behar West	Sh. Paresh Chandra De, Vill. Tanganmari, P.O. Rajarhat, Distt. Cooch Behar.	-Do-
3.	5-Cooch Behar West	Sh. Samchhul Huda, Vill. & P.O. Dewanhat, P.S. Kotwali Distt. Cooch Behar.	-Do-
4.	7-Dinhata	Sh. Mokbul Hossain Sarkar, Vill. & P.O. Kalmati, PS. Dinhata, Distt. Cooch Behar.	-Do-
5.	9-Tufanganj (SC)	Sh. Anil Kumar, Vill. Salbari, PO. Nagururhat, Distt. Cooch Behar.	-Do-
6.	33-Kushmandi (SC)	Sh. Gouranga Barman, Vill. Pupura, P.O. Sarala, Distt. Dakshin Dinajpur.	-Do-
7.	36-Tapan (ST)	Sh. Munsu Tudu, Vill. Dine Malancha, P.O. Balapur, P.S. Tapan, Distt. Dakshin Dinajpur.	-Do-
8.	40-Gajol (ST)	Sh. Sadananda Biswakarmakar, Vill. Kadubari, P.O. Gazole, Distt. Malda.	-Do-
9.	40-Gajol (ST)	Sh. Lakshan Tudu Vill. Dhamua, P.O. Rajadighi, Distt. Malda.	-Do-

2325 4567-8

1	2	3	4
10.	41-Kharba	Sh. Sahabuddin Vill. Nishotola, P.O. Singia, Distt. Malda.	Failed to lodge account of election expenses,
11.	42-Harishchandrapur	Sh. Shankar Das, Vill. & P.O. Hardamnagar, P.S. Harishchandrapur, Distt. Malda.	-Do-
12.	45-Malda (SC)	Sh. Tapes Sarkar, Vill. Rangavita Ghoshpara, P.O. Gajol, Distt. Malda.	-Do-
13.	-do-	Sh. Dwijen Barman, Vill. Kalipur, P.O. Gopalpurhat, Distt. Malda.	-Do-
14.	46-English Bazar	Sh. Chandra Kanta Roy, Vill. Bablabon, P.O. Ahora, P.S. Gazole, Distt. Malda.	-Do-
15.	70-Palashipara	Sh. Sumitra Mandal, Vill. Mobarakpur, P.O. Haripur, Distt. Nadia.	-Do-
16.	-do-	Sh. Daulat Hossain, Vill. & P.O. Baruipara, P.S. Tehatta, Distt. Nadia.	-Do-
17.	71-Nakashipara	Sh. Samir Sarkar, Vill. & P.O. Uttar Bahirgachhi, Purbapara, Distt. Nadia.	-Do-
18.	72-Kaliganj	Sh. Habibur Rahaman, Vill. & P.O. Radhakantapur, P.S. Kaliganj, Distt. Nadia.	-Do-
19.	73-Chapra	Sh. Bidyut Biswas, Vill. Malengapara (Natanpara) P.O. Bctai, P.S. Tehatta, Distt. Nadia.	-Do-
20.	73-Chapra	Sh. Hafizur Rahaman Mondal, Vill. Laxnigachha, P.O. Talukhuda, P.S. Chapra, Distt. Nadia.	-Do-
21.	-do-	Sh. Asit Munday, Vill. Sonadahapara, P.O. Natma, P.S. Tehatta, Distt. Nadia.	-Do-
22.	74-Krishnaganj (SC)	Sh. Krishna Chandra Biswas, Vill. Shibnibash Basakpara, P.O. Shibnibash, P.S. Kishanganj, Distt. Nadia.	-Do-
23.	75-Krishnanagar East	Sh. Manika Biswas, Vill. Darga Lane, P.O. Krishnagar, Distt. Nadia.	-Do-
24.	75-Krishnanagar West	Sh. Haran Biswas, Vill. Gaburkuli, P.O. Dhubulia T.B. Hospital, Distt. Nadia.	-Do-

1	2	3	4
25.	78-Shantipur	Sh. Ujjal Nandi, 2, Belepukur Lane, P.O. & P.S. Santipur, Distt. Nadia.	Failed to lodge account of election expenses.
26.	79-Hanskhali (SC)	Sh. Dulal Biswas, Vill. Bhagabatitala, P.O. Dakshinpara, Distt. Nadia.	-Do-
27.	80-Ranaghat East (SC)	Sh. Kamal Mallick Vill. Neulia, P.O. Purba Bishnupur, P.S. Chakdaha, Distt. Nadia.	-Do-
28.	-do-	Sh. Kumaresh Roy, Vill. Durgapur, P.O. Panpara, P.S. Ranaghat, Distt. Nadia.	-Do-
29.	83-Haringhata	Sh. Gora Chand Mandal Vill. Baikara, P.O. Haripukuria, P.S. Haringhata, Distt. Nadia.	-Do-
30.	84-Bagdaha (SC)	Sh. Chandan Mallick, Vill. No. 1 Helencha Colony, P.S. Bagdah, Distt. North 24 Parganas.	-Do-
31.	85-Bongaon	Sh. Makhan Roy, Vill. & P.O. Bhandar Kola, P.S. Gopal Nagar, Distt. North 24 Parganas.	-Do-
32.	86-Gaighata	Sh. Tanmoy Mitra, Block-D, Flat-22, Govt. Housing Estate, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata-14.	-Do-
33.	-do-	Sh. Biplab Halder, 87 No., Habra (Natungram), P.O. Prafullanagar, P.S. Habra, Distt. North 24 Parganas.	-Do-
34.	87-Habra	Sh. Abdul Hamid Mandal, Vill. Danchgharia, P.O. Kumra Kashipur, P.S. Habra, Distt. North 24 Parganas, West Bengal	-Do-
35.	89-Amdanga	Sh. Narayan Ghosh, Vill. Shibhalaya, P.O. Digha, P.S. Barasat, Distt. North 24 Parganas, West Bengal	-Do-
36.	-do-	Sk. Noor Mohammad, Vill. Kheliya, P.O. Arkhali Amdanga, P.S. Amdanga, Distt. North 24 Parganas, West Bengal	-Do-
37.	90-Barasat	Sh. Ashok Mukherjee, Surendra Nath Colony, Nabapally, Barasat, Distt. North 24 Parganas.	-Do-
38.	91-Rajarhat (SC)	Sh. Tanmoy Mondal, HD2/2, Nibas Apartment, Bayuipara, Baguiati, P.O. Aswininagar, P.S. Rajarhat, Distt. North 24 Parganas.	-Do-

1	2	3	4
39.	91-Rajarhat (SC)	Sh. Sukumar Ray, Vill. Kada, P.O. Akandakeshari, P.S. Rajarhat, Distt. North 24-Parganas.	Failed to lodge account of election expenses.
40.	-do-	Sh. Srikanta Bala, A-15, VIP Park, P.O. Prafullakanan, Kolkata-101	-Do-
41.	92-Deganga	Sh. Mafidul Haque Sahaji, Vill. Sohai, P.O. Sohai Kumarpur, P.S. Deganga, Distt. 24 Parganas (North), Pin-743423.	-Do-
42.	-do-	Md. Quamruzzaman, Vill. Dewan Ati, P.O. Hadipur, P.S. Deganga, Distt. 24 Parganas (North)	-Do-
43.	-do-	Md. Yakub, 2/1, Bhukailash Road, P.S. Ekbalpur, Kolkata-700023.	-Do-
44.	97-Harua (SC)	Shri Mrityunjoy Mondal, Vill. Brahman Chak, P.O. Sonapukur, P. S. Harua, Distt. North-24 Parganas, West Bengal.	-Do-
45.	-do-	Shri Hazari Lal Mondal, Vill. Mohanpur, P.O. Bachra Mohanpur, P. S. Harua, Distt. North-24 Parganas, West Bengal.	-Do-
46.	-do-	Shri Lakshan Das, Vill. Dhakin Gardha, P.O. & P.S. Harua Distt. North-24 Parganas, West Bengal.	-Do-
47.	99-Hingaljanj (SC)	Shri Parimal Mistry, Vill. & P.O. Hemnagar, P.S. Hingaljanj, Distt. North-24 Parganas, West Bengal.	-Do-
48.	128-Bijpur	Shri Subir Biswas, M-2/C, Railway Quarter, P. O. Kanchrapara, P.S. Bijpur, Distt. North-24 Parganas, West Bengal. Pin-743145	-Do-
49.	131-Jagatdal	Shri Paresh Chandra Choudhary, Garulia Main Road, P. O. Garulia, Distt. North-24 Parganas.	-Do-
50.	-do-	Sujit Samajpati, Santinagar Palta, P.O. Bengal Enamel, Distt. North-24 Parganas, Pin-743122	-Do-
51.	132-Noapara	Shri Tapash Sarkar, 89, School Road, Kalanibas (North), P.O. Nonachandanpukur, Distt. North-24 Parganas.	-Do-

1	2	3	4
52.	134-Khardah	Shri Amal Halder, VII. Matharangi, P.O. Nilganj Bazar, P.S. Titagarh, Distt. North-24 Parganas,	Failed to lodge account of election expenses
53.	136-Kamarhati	Sh. Shamnbhu Dutta, Naton Pukur (South), Naton Pukur Road, P.O. Barasat.	-Do-
54.	137-Baranagar	Shri Tridib Sinha, 7, Sristi Dhar Dutta Lane, Kolkata-6.	-Do-
55.	139-Belgachia (East)	Shri Nitai Dutta, 172, Dakshindari Road, Kolkata-700048	-Do-
56.	-do-	Shri Sujit Bose, (Independent), 81/1, Kabi Nabin Sen Road, Kolkata-700028	-Do-
57.	-do-	Shri Subhas Chakraborty, (Independent), Pansila, P.O. Pansila, Sodepur, Distt. North 24-Parganas.	-Do-
58.	146-Chowringhee	Shri Aditya Neogi, Kundu Lane, Khamarpara, P.O. Bansberia, Distt. Hooghly	-Do-
59.	-do-	Md. Mustafa, 18, Kabitirtha Sarani, Kolkata-700023	-Do-
60.	-do-	Sh. Panna Lal Chowdhury, 15/A, Ahiri Pukur 2nd Lane, P.S. Karaya, Kolkata-19	-Do-
61.	146-Chowringhee	Shri Raghunath Bhowmick, Vill. Joypur, P.O. & P.S. Mogra, Distt. Hooghly-712148.	-Do-
62.	147-Kabitirtha	Shri Kapil Deo Yadav, 6B/2FL, Dent Mission Road, Kolkata-23.	-Do-
63.	-do-	Shri Rajesh Sharma, 49/5/H/14, Karl Marx Sarani, Kolkata-23.	-Do-
64.	-do-	Shri Sheo Pujan Gupta 49/5/H/14, Karl Marx Sarani Kolkata-23.	-Do-
65.	118-Alipore	Shri Ajoy Kumar Das, 18B, Gobinda Ghoshal Lane, P.O. Bhowanipur, P. S. Kalighat, Kolkata-25.	-Do-
66.	-do-	Shri Ashim Saha, 64, Chetla Road, Kolkata-27.	-Do-

1	2	3	4
67.	148-Alipore	Shri Deb Kumar Das, 35/B, Madan Paul Lane, Kolkata-25.	Failed to lodge account of election expenses
68.	-do-	Shri Prasanta Kumar Maity, 7/1, Gopal Nagar Road, Kolkata-27.	-Do-
69.	149-Rashbehari Avenue	Sh. Dipankar Naskar, Vill. Solgohalia, P. O. Madarat, P.S. Baruiপুর, Kolkata-700144.	
70.	-do-	Shri Kajal Das, 13(HT-3), Bowali Mondal Road, Kolkata-700026.	-Do-
71.	-do-	Shri Pranab Bhattacharjee, 12A, Satish Mukherjee Road, (Gr. Floor), Kolkata-700026.	-Do-
72.	-do-	Shri Shankar Das, 22. Bejoy Bose Road, Kolkata-700025.	-Do-
73.	152-Ballygunge	Shri Rabin Banerjee, 143/1, Picnic Garden Road, Kolkata-700039.	Failed to lodge account of election expenses in the manner required by law.
74.	-do-	Subhasish Das, 23/2 Ganesh Ghosh Lane, Kolkata-700039	-Do-
75.	152-Ballygunge	Susanta Kr. Ghosh, 99, Mahatma Gandhi Road, Kolkata-700082	-Do-
76.	-do-	Sh. Mukhtar Ahmed, 38/H/5, Samsul Huda Road, Kolkata-700017	Failed to lodge account of election expenses
77.	-do-	Sh. Sasanka Subhra Mukherjee, 2W. Cornfield Road, Kolkata-700019	-Do-
78.	153-Entally	Khalid Ebadullah 3, Methar Ali Road Kolkata-700017	-Do-
79.	-do-	Sh. Tawlad Hossain, 35/2B, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700017	-Do-
80.	155-Beliaghata	Naba Kumar Mondal, 45/H/9, Beliaghata Main Road, Kolkata-700010	-Do-
81.	156-Sealdah	Dayanand Prasad, 154, B.B. Ganguly Street, Kolkata-700012	-Do-

1	2	3	4
82.	156-Sealdah	Prodyut Kumar Ghosh 9, Netai Babu Lane, Kolkata-700012	Failed to lodge account of election expenses.
83.	-do-	Tarun Kumar Kar, 26, Premchand Boral Street, Kolkata-700012	-Do-
84.	157-Vidyasagar	Ajoy Kumar Saha, 17A, Radhanath Mallick Lane, Kolkata-700012	-Do-
85.	-do-	Sajan Biswas, 115A, Raja Rammohan Sarani, Kolkata-700009	-Do-
86.	162-Howrah (North)	Sanjay Chowdhury, 3/1/C, Panjary Para Lane, Salkia, Howrah.	-Do-
87.	-do-	Sarwan Shaw, 15, Guha Road, Ghosuri, Howrah-711107.	-Do-
88.	-do-	Somesh Das, P-17, Darsha Govt. Colony, P.O. G.I.P. Colony, P.S. Jagacha, Howrah.	-Do-
89.	164-Howrah (South)	Swaminath Prasad, 48/2, South Buxurah, 1st Bye Lane, Howrah-711109	-Do-
90.	165-Shibpur	Dharampal Singh, Manickpur, P.O. Delta Mill, Howrah.	-Do-
91.	166-Domjur	Amal Chandra Das, Nischinda, P.O. Ghosh Para, P.S. Bally, Howrah.	-Do-
92.	169-Sankrail (SC)	Rabin Sarkar, Vill+P.O.- Dhulagori, P.S. Sankrail, Howrah-711302.	-Do-
93.	-do-	Gopal Mondal, Vill+P.O.-South Sankrail, P.S. Sankrail, Howrah-711313.	Failed to lodge account of election expenses in the manner required by law.
94.	171-Uluberia South	Zarjis Ahamed Middya, Vill-Baulkhali (Daspara), P.O. Burikhali, Distt. Howrah.	Failed to lodge account of election expenses.
95.	173-Bagnan	Akkail Ali, Vill. Hetampur, P.O.+P.S. Bagnan, Distt-Howrah.	-Do-
96.	233-Banduan (ST)	Birsing Murmu, Vill. Chirudi, P.O.-Chirudi Radhanagar, Distt.-Purulia.	-Do-

1	2	3	4
97.	233-Banduan (ST)	Laxmi Kanta Sabar, Vill. Phuljhore (Khariyadi), P.O.-Phuljhore, P.S. Barabazar, Distt.-Purulia.	Failed to lodge account of election expenses.
98.	243-Hura	Prakash Ch : Bouri, Vill. & P.O.-Haramjanga, Distt.-Purulia.	-Do-
99.	244-Taldangra	Biswanath Saren, Vill. Ramboni, P.O.-Pathardoba, P.S. Simlapal, Dist.-Bankura.	-Do-
100.	245-Raipur (ST)	Malindra Nath Tudu, Vill.-Murkum, C/o CPI (ML) Office, P.O.-Kadmagarh, P.S.-Raipur, Distt.-Bankura.	-Do-
101.	246-Ranibandh (ST)	Biswanath Mandi Vill.-Punshya, P.O.-Kadmagarh, P.S.-Barikul, Dist.-Bankura.	-Do-
102.	247-Indpur (SC)	Snigdha Mandal Vill. & P.O.-Indpur, P.S.-Indpur, Dist.-Bankura.	-Do-
103.	249-Gangajalghati (SC)	Mohanlal Mallik, Pranabananda Pally (West), P.O.-Kenduadihi, Dist.-Bankura.	-Do-
104.	-do-	Swapan Bouri Vill.-Jongpur, P.O.-Banjora, P.S.-Mejhia, Dist.-Bankura.	-Do-
105.	250-Barjora	Prasanta Hembram CPI (ML) Office, Beliatore (Baramile) Pin-722203	-Do-
106.	251-Bankura	Durgadas, Tudu Vill.-Bundhdanga, P.O. Ukhradihi.	-Do-
107.	256-Sonamukhi (SC)	Dipali Saha, Sonamukhi Lalbazar, Thanagora, P.O. Sonamukhi, Dist.-Bankura.	-Do-
108.	-do-	Tarani Roy, CPI (ML) Rampur Office, P.O. Hamirhati, Dist.-Bankura.	-Do-

[No. 76/WB-LA/2007(1)]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.